



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 1977/ज्येष्ठ 27, 1899

No. 245]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 1977/JYAISTHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 17th June 1977

S.O. 398(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Kumai Tea Estates (hereinafter referred to as the said tea unit), situated in the District of Darjeeling, owned by Messrs. Snowview Tea Company Private Limited, 4, Council House Street, Calcutta—700001, in relation to which a full and complete investigation has been made under sub-section (1) of section 16 B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), that,—

- (a) the average yield of the said tea unit during the three years 1972, 1974, 1975 out of five years immediately preceding 1977, namely, 1972 to 1976, has been lower than the district average yield by twenty-five per cent,
- (b) the persons owning the said tea unit have habitually made default in the payment of wages and provident fund dues of workers and other employees, and
- (c) the said tea unit is being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 16.D of the said Act, the Central Government hereby authorises the West Bengal Tea Development Corporation, No. 4, Clive Row, Calcutta-700001, (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said tea unit subject to the following terms and conditions, namely —

- (i) the authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government,
- (ii) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette,
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette

[No. B. 12012(10)/76-Plant(A)]

P. K. KAUL, Addl Secy

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 1977

का० घा० 398(ख) —केन्द्रीय सरकार की, कुमाई टी एस्टेट्स नामक चाय की यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त चाय यूनिट कहा गया है) के बारे में, जो दार्जिलिंग जिले में स्थित है और मैसर्स स्नोव्हाई टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, 4, काऊसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001, के स्वामित्व में है, तथा जिसके सम्बन्ध में चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ख की उपधारा (1) के अधीन पूरे-पूरे एवं सर्वांगीण अन्वेषण किये जा चुके हैं, यह राय है कि—

- (क) 1977 के ठीक पूर्व के पांच वर्षों अर्थात् 1972 से 1976 में से तीन वर्ष 1972, 1974, 1975 के दौरान उक्त चाय यूनिट की औसत उपज जिले की औसत उपज से 25 प्रतिशत कम रही है,
- (ख) उक्त चाय यूनिट के स्वामियों ने कर्मकारों तथा अन्य कर्मचारियों की मजदूरी तथा भविष्य निधि देवों के सदाय में अभ्यासत व्यतिक्रम किया है; और
- (ग) उक्त चाय यूनिट का प्रबन्ध ऐसे ढंग से किया जा रहा है जो चाय उद्योग और लोक हित के लिए बहुत अहितकर है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 16ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वेस्ट बंगाल टी डेवलपमेंट कारपोरेशन, नम्बर 4, कलाईव रो, कलकत्ता-700001 को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) सम्पूर्ण उक्त चाय यूनिट का प्रबन्ध, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ले लेने के निमित्त प्राधिकृत करती है, अर्थात् —

- (i) प्राधिकृत व्यक्ति, उन सभी निदेशों का अनुपालन करेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय समय पर जारी करे;
- (ii) प्राधिकृत व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा,
- (iii) यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो वह प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति पहले भी समाप्त कर सकता है।

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[स० बी० 12012(10)/76-प्लान्ट(ए)]

पी० के० कोल, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977